

July 30, 2026

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001, Maharashtra, India
Scrip Code: 544174

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051, Maharashtra, India
Symbol: TBOTEK

Sub: Newspaper advertisement for Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2026.

Ref: Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations')

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of Listing Regulations, please find enclosed extract of newspaper advertisements relating to the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2026, published today, i.e., on July 30, 2026, in the following newspapers:

1. Financial Express in English; and
2. Jansatta in Hindi.

This disclosure will also be available on Company's website at <https://www.tbo.com/engagement/investors/#StockExchangeSubmission>

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully

For and on behalf of TBO Tek Limited

Neera Chandak
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

TBO Tek Limited

CIN: L74999DL2006PLC155233

✉ info@tbo.com | ☎ +91 124 4998999

📍 **Registered Office Address:** Unit No. 501, 5th Floor, Worldmark-4, Asset Area No. LP-IB-04, Gateway District, Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi – 110037

📍 **Corporate Office Address:** Plot No. 728, Udyog Vihar Phase- V Gurgaon-122016 Haryana, India

Your booking experience starts at www.tbo.com

Continued from Previous page...

Offer. The sources of funds for the Acquirer are from their cash and cash equivalents (including liquid investments).

3. Mr. Ravi Saxena (Membership No 453681) partner of KVNG & Associates (Firm Registration No. 002628C) having office at 55, Mural Mohalla, Sanyogitaganj Chhawani, Indore – 452001, Madhya Pradesh, email id: ravisanewa@gmail.com vide certificate dated July 23, 2026, bearing Unique Document Identification Number (UDIN) – 26453681EIANDQ7159 has certified that the Acquirer has adequate financial resources to meet financial obligations that shall be attracted pursuant to Open Offer.

4. In accordance with Regulation 17 of SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer and the Manager to the Open Offer have entered into an escrow agreement dated July 23, 2026 with Kotak Mahindra Bank Limited (“**Escrow Agent**”), having its Registered Office at 2nd Floor, 27BKC, Plot No. C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051, acting through its branch office at MG Road, Bangalore. Pursuant to the Escrow Agreement, the Acquirer has opened an escrow account under the name and title of “MITSHI OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT” (“**Escrow Account**”), and has made a cash deposit of ₹90,00,000/- (Rupees Ninety Lakh Only) (“**Escrow Amount**”) (being more than 25% (Twenty Five percent) of the total considerations payable in the Open Offer, as required under Regulation 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations). The cash deposit has been confirmed by way of a confirmation letter dated July 28, 2026 issued by the Escrow Agent to the Manager to the Open Offer.

5. The Manager to the Open Offer has been fully authorized to operate the Escrow Account and has been duly empowered to realize the value of the Escrow Account in terms of the SEBI (SAST) Regulations.

6. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Open Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirer, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

7. Based on the above, the Manager to the Open Offer is satisfied, (i) about the adequacy of resources to meet the financial requirements of the Open Offer and the ability of the Acquirer to implement the Open Offer in accordance with the SEBI (SAST) Regulations, and (ii) that firm arrangements for payment through verifiable means are in place to fulfill the Open Offer obligations.

I. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As on the date of this Detailed Public Statement, to the knowledge of the Acquirer, there are no other statutory approvals required to complete this Open Offer. However, in case of any such statutory approvals are required by the Acquirer, later, before the expiry of the Tendering Period, this Open Offer shall be subject to such approvals and the Acquirer shall make the necessary applications for such statutory approvals.

2. In case of delay in receipt of any statutory approval, SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any wilful default or neglect of the Acquirer or the failure of the Acquirer to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirer agreeing to pay interest to the Public Shareholders as directed by SEBI, in terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if a delay occurs on account of wilful default by the Acquirer in obtaining the requisite approvals, Regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.

3. In terms of Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, in the event that, for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, the approvals specified in this DPS as set out in this part or those which become applicable prior to completion of the Open Offer are not received or refused or any of the conditions precedent under the SPA are not met, then the Acquirer shall have the right to withdraw the Open Offer. In the event of such a withdrawal of the Open Offer, the Acquirer, through the Manager to the Open Offer, shall, within 2 (two) Working Days of such withdrawal, make an announcement of such withdrawal stating the grounds for the withdrawal in accordance with Regulation 23(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

4. Non-resident equity shareholders who wish to tender their equity shares in the Target Company in this Offer will be required to submit all the applicable Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “**RBI**”) approvals that they would have obtained for acquiring, the equity shares of the Target Company. In the event such RBI approvals are not submitted, the Acquirer reserves the sole right to reject the equity shares tendered in the Offer.

J. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

Sr. No.	Tentative Activity Schedule	Schedule of Activities (Day and Date)*
1.	Issue of Public Announcement	Thursday, July 23, 2026
2.	Publication of the Detailed Public Statement in the Newspapers	Thursday, July 30, 2026
3.	Last date for filing the Draft Letter of Offer with SEBI	Thursday, August 06, 2026
4.	Last date for public announcement for competing offer(s)	Thursday, August 20, 2026
5.	The last date for receipt of comments from SEBI on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Open Offer)	Friday, August 28, 2026
6.	Identified Date*	Tuesday, September 01, 2026
7.	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the Public Shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date	Tuesday, September 08, 2026
8.	Last date for publication of the recommendations of the committee of the independent directors of the Target Company to the Public Shareholders for this Open Offer in the newspapers	Friday, September 11, 2026
9.	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Tuesday, September 15, 2026
10.	Last date of publication of opening of Open Offer public announcement in the newspapers	Tuesday, September 15, 2026
11.	Date of commencement of Tendering Period	Wednesday, September 16, 2026
12.	Date of closing of Tendering Period	Tuesday, September 29, 2026
13.	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or return of Equity Shares to the Public Shareholders	Wednesday, October 14, 2026
14.	Last date for Publication of post-Open offer Public Announcement in the newspapers in which this Detailed Public Statement was published	Thursday, October 22, 2026

**Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. It is clarified that all the Public Shareholders (even if they acquire Equity Shares and become shareholders of the Target Company after the Identified Date) are eligible to participate in this Open Offer any time during the Tendering Period.*

#The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and are subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authorities and may have to be revised accordingly. To clarify, the actions set out above may be completed prior to their corresponding dates subject to compliance with the SEBI (SAST) Regulations.

K. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON-RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. The Open Offer will be implemented by the Acquirer through the Stock Exchange Mechanism made available by the BSE in the form of a separate window (“**Acquisition Window**”), in accordance with SEBI (SAST) Regulations and the SEBI Circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015, as amended from time to time, read with the SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, as amended from time to time and SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and SEBI master circular SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/ CIR/2023/31 dated February 16, 2023, as amended from time to time and notices/ guidelines issued by BSE and the Clearing Corporation in relation to the mechanism/ process for the acquisition of shares through the stock exchange pursuant to the tender offers under takeovers, buy back and delisting, as amended and updated from time to time (“**Acquisition Window Circulars**”). The facility for acquisition of Equity Shares through the stock exchange mechanism pursuant to the Offer shall be available on BSE in the form of the Acquisition Window.

2. As per the provisions of Regulation 40 (1) of the SEBI (LODR) Regulations and SEBI's press release dated December 03, 2018, bearing reference number ‘PR 49/2018’, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository with effect from April 01, 2019. However, in accordance with SEBI bearing reference number ‘SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated July 31, 2020’, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in an open offer. Such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations. Accordingly, Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as well are eligible to tender their Equity Shares in this Open Offer as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

3. All Public Shareholders, registered or unregistered, holding the Equity Shares in dematerialized form are eligible to participate in this Open Offer at any time during the period from the Offer Opening Date and Offer Closing Date before the closure of the Tendering Period. All Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who has acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who has not received the Letter of Offer, may also participate in this Open Offer. The accidental omission to send the Letter of Offer to any person to whom the Offer is made or the non-receipt or delayed receipt of the Letter of Offer by any such person will not invalidate the Open Offer in any way.

4. The Offer will be implemented by the Target Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited in the form of a separate window as provided under the SEBI (SAST) Regulations read with Acquisition Window Circulars. The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate the placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for dematerialized Equity Shares. Before placing the bid, the concerned Public Shareholder/Selling Broker would be required to transfer the tendered Equity Shares to the special account of Indian Clearing Corporation Limited (‘Clearing Corporation’), by using the settlement number and the procedure prescribed by the Clearing Corporation.

5. BSE shall be the designated stock exchange (“**Designated Stock Exchange**”) for the purpose of tendering Offer Shares in the Open Offer.

6. The Acquirer have appointed Nikunj Stock Brokers Limited (“**Buying Broker**”) as its broker for the Open Offer through whom the purchase and settlement of the Equity Shares tendered in the Open Offer will be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name	Nikunj Stock Brokers Limited
Address	A-92, Ground Floor, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-110007
Phone	011-47030017-18
Email	info@nikunjonline.com
CIN	U74899DL1994PLC060413
Website	www.nikunjonline.in
SEBI Registration No	INZ000169335
Investor Grievance Email ID	lg.nikunj@nikunjonline.com
Contact Person	Mr. Pramod Kumar Sultania

7. All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stockbrokers (“**Selling Brokers**”) within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period. The Selling Broker can enter orders for dematerialized as well as physical Equity Shares.

8. All the Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would be required to make available their shares for bidding to their respective stock broker (“**Selling Broker**”). The shareholders have to intimate their Selling Broker to place the bid during the normal trading hours of the secondary market during the Tendering Period. Upon placing the bid, the Selling Broker(s) shall provide the Transaction Registration Slip (“**TRS**”) generated by the exchange bidding system to the shareholder. TRS will contain details of order submitted like Bid ID No., DPID, Client ID, Regd. Folio No., No. of Equity Shares Tendered, etc.

9. In terms of the SEBI Master Circular, a lien shall be marked against the Equity Shares tendered in the Offer. Upon finalization of the entitlement, only the accepted quantity of Equity Shares will be debited from the demat account of the concerned Public Shareholder.

10. Equity Shares should not be submitted / tendered to the Manager, the Acquirer or the Target Company.

THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THE OPEN OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER, WHICH SHALL ALSO BE MADE AVAILABLE ON SEBI'S WEBSITE (www.sebi.gov.in.)

L. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer accepts full and final responsibility for the information contained in the Public Announcement and this Detailed Public Statement and for their obligations as laid down in SEBI (SAST) Regulations. All information pertaining to the Target Company and/or the Sellers has been obtained from (i) publicly available sources, or (ii) any information provided or confirmed by the Target Company, and the accuracy thereof has not been independently verified by the Manager to the Open Offer.

2. The Acquirer and the Manager to the Open Offer do not accept any responsibility with respect to such information relating to the Target Company and/or the Sellers.

3. The Acquirer have appointed Adroit Corporate Services Private Limited, as the Registrar to the Open Offer. The contact person (as mentioned below) can be contacted from 10:00 a.m. (Indian Standard Time) to 5:00 p.m. (Indian Standard Time) on working days (except Saturdays, Sundays, and all public holidays), during the Tendering Period.

4. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.

5. In this DPS, all references to “Rs.” “₹” or “INR” are references to the Indian Rupee(s).

6. This Detailed Public Statement will be available and accessible on the websites of SEBI at www.sebi.gov.in. and BSE at www.bseindia.com

7. Pursuant to Regulation 12 of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirer has appointed Srujan Alpha Capital Advisors LLP as the Manager to the Open Offer and Adroit Corporate Services Private Limited has been appointed as Registrar to the Open Offer. Their contact details are as mentioned below:

MANAGER TO THE OPEN OFFER	
SRUJAN ALPHA CAPITAL ADVISORS LLP Registered Office Address: 112A, 1st floor, Arun Bazar, S.V. Road, Beside Bank of India, Malad (West), Mumbai- 400 064 Corporate Office Address: 1814/1815, 9, Business Bay, Mindspace, Chincholi Bunder Road, Malad West, Mumbai, Maharashtra 400064 Tel. No.: +91 022-46030709; E-mail: mitshiopenoffer@srujanalpha.com Website: www.srujanalpha.com Investor Grievance: partners@srujanalpha.com, jinesh@srujanalpha.com SEBI Reg. No.: INM000012829 Validity Period: Permanent Contact Person: Mr. Jinesh Doshi	
REGISTRAR TO THE OPEN OFFER	
ADROIT CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED Registered Address: 18-20, Jafferbhoy Industrial Estate, 1st Floor, Makwana Road, Marol Naka, Andheri (East), Mumbai 400 059 Tel No.: +91-22- 42270449 E-mail: haragprashadn@adroitcorpote.com Investor Grievance: info@adroitcorpote.com Website: www.adroitcorporate.com SEBI Registration No.: INR000002227 Validity Period: Permanent Contact Person: Mr. Hara Prasad Nahak	
Date: July 29, 2026 Place: Mumbai	ISSUED BY MANAGER TO THE OPEN OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER Sd/- Mr. Karronn Naresh Bajaj (“Acquirer”)

Samco Asset Management Private Limited
A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (west), Mumbai 400 013
Tel: +91 22 4170 8999; | **Toll Free No.:** 1800 103 4757
CIN: U65929MH2019PTC334121
Website: www.samcomf.com

**SAMCO**
MUTUAL FUND
The Momentum House.

NOTICE No. 44/2026
Annual Report of the scheme(s) of Samco Mutual Fund
NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Samco Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated July 27, 2024, the Annual Report of all the Schemes of Samco Mutual Fund (“SMF”) for the financial year ended March 31, 2026 have been hosted on the website of the Fund www.samcomf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com, respectively.
The Investors/Unitholders can view and download Annual Report of all schemes of Samco Mutual Fund from the website of the AMC and AMFI. Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report by writing to the AMC at the email address mfassist@samcomf.com or calling the AMC on the toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of the official points of acceptance of SMF.
For Samco Asset Management Private Limited
(Investment Manager for Samco Mutual Fund)
Place : Mumbai
Date : July 30, 2026
Sd/-
Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

**AEFC**
Real Estate as a Service Company
EFC (I) Limited

Regd. Office: 6th Floor, VB Capitol Building, Range Hill Road, Opp. Hotel Symphony, Bhoslenagar, Shivajinagar, Pune-411007, Maharashtra | **CIN:** L74110PN1984PLC216407
Tel.: 020 2952 0138 | **Email Id:** compliance@efclimited.in | **Website:** www.efclimited.in

STATEMENT OF UNAUDITED (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2026
The Board of Directors of the Company, at the meeting held on July 29, 2026, approved the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2026 (“**Financial Results**”).
The Financial Results along with the Limited Review Report, have been uploaded on the Company's website at <https://efclimited.in/investor-relation/financial-results/> and can be accessed through the given QR code.

For and on behalf of Board of Directors of EFC (I) Limited
Sd/-
Umesh Kumar Sahay
Chairman and Managing Director
DIN: 01733060

Date: July 30, 2026
Place: Pune

**DEVYANI**
INTERNATIONAL LIMITED

Corporate Identification Number: L15135HR1991PLC143853
Registered & Corporate Office: Plot No. 18, Sector – 35, Gurugram – 122004, Haryana **Tel:** +91-124-4566300,
E-mail: companysecretary@dil-rjcorp.com, **Website:** www.dil-rjcorp.com

Statement of Standalone and Consolidated financial results for the Quarter ended 30 June 2026
[Regulation 33 read with Regulation 47 (1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]
The Board of Directors of the Company at its meeting held on 29 July 2026 inter-alia considered and approved the Unaudited Financial Results of the Company (Standalone and Consolidated) for the Quarter ended 30 June 2026. (‘Financial Results’) The Financial Results along with the Limited Review Reports, have been disseminated on the Company's website at https://dil-rjcorp.com/wp-content/uploads/2026/07/1_Financial-Results.pdf and can be accessed by scanning the QR Code.

For and on behalf of Board of Directors of Devyani International Limited
Sd/-
Manish Dawar
Whole-time Director (President & Group CEO)
DIN: 00319476

Place : Gurugram
Dated : 29 July 2026

**tbo.com**

TBO Tek Limited
CIN: L74999DL2006PLC155233
Regd. Office: Unit No. 501, 5th Floor, Worldmark-4, Asset Area No. LP-IB-04, Gateway District, Aerocity, Near Indira Gandhi International Airport, New Delhi-110037
Corporate Office: Plot No. 728, Udyog Vihar Phase-V Gurugram-122016, Haryana, India
Tel. No.: +91 124 499 8999, **Email:** corporatesecretarial@tbo.com, **Website:** www.tbo.com

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2026
The Board of Directors of the Company, at their meeting held on July 29, 2026, approved the Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results (“**Financial Results**”) of the Company for the Quarter ended June 30, 2026.
The Financial Results along with the Limited Review Reports are disseminated on the Stock Exchange websites - www.bseindia.com & www.nseindia.com, and are also posted on the Company's website - www.tbo.com, which can be accessed by scanning the Quick Response code.
For and on behalf of the Board of Directors of TBO Tek Limited
Sd/-
Ankush Nijhawan
Joint Managing Director
DIN: 01112570
Sd/-
Gaurav Bhatnagar
Joint Managing Director
DIN: 00446482
Date: July 29, 2026
Place: Gurugram
Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.


epaper.financialexpress.com

New Delhi

बिक्री सूचना में संशोधन		
एसबीएस ट्रायपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (पर्सिमायन में)		
सीआईएन: २6३013डीएफ2004पीटीसी128680		
पंजीकृत कार्यालय:- ए-17३, पहली मंजिल, गेड नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 10, महीनलपुर एस्टेटनगर, दिल्ली-1100३7		
22.07.2026 को प्रकाशित द्वितीय ई-नीलामी के संबंध बिक्री सूचना में संशोधन		
यह सूचित किया जाता है कि द्वितीय ई-नीलामी को अनुसूची में संशोधन किया गया है। संशोधित विधियां इस प्रकार हैं:		
विवरण	मौजूदा तिथि	संशोधित तिथि
नीलामी प्लेटफॉर्म पर पाठ्य संचयी दस्तावेज दायित्व करने की अंतिम तिथि	1३.08.2026	21.08.2026
ईंग्रैफी जमा करने की अंतिम तिथि (दूसरी ई-नीलामी)	1३.08.2026	21.08.2026
मूल का दौरा/निरीक्षण	22.07.2026 से 1०.08.2026	22.07.2026 से 20.08.2026
दूसरी ई-नीलामी की तिथि एवं समय	17.08.2026, दोपहर ३:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक	24.08.2026, दोपहर ३:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

बिक्री सूचना और ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में निहित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी और लागू रहेंगी।
 दिश्यानी: कृपया ध्यान दें कि तीसरी ई-नीलामी का कार्यक्रम और अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
 हस्ता./
 आईपी मोहन लाल जैन, पर्सिमायक,
 मेसर्स एसबीएस ट्रायपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (पर्सिमायन में)
 आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: आईबीबीआई/आईएन-001/आईपी-वी00032/2016-17/10075
 ईमेल: liquidator.sbstranspole@gmail.com

आईबीबीआई के साथ पंजीकृत पता: ए-7/३7, अमर प्राइड फ्लोर, सेक्टर-१6, रोहिणी, नई दिल्ली - 110089	पर्सिमायक का पर्सिमायन विनिर्दिष्ट पता: मार्ग संयुक्त मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 422, चौथा फ्लोर, असेल सेक्टर-2, भीरानी काना प्लेस, नई दिल्ली-11006६ ईमेल: liquidator.sbstranspole@gmail.com
आईबीबीआई के साथ पंजीकृत भेल आईपी: ml.jain@sumedhamanagement.com	फोन: +९1 7042773564
स्थान: नई दिल्ली	दिनांक: ३0.07.2026

एसएफसीएल लिमिटेड
CIN: L64200HP1987PLC007466
पंजी. कार्यालय: ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन-17३21३, (हिमाचल प्रदेश)
फोन नं.: +९1-179२-2३0644; फैक्स नं.: +९1-179२-2३1९02
वेबसाइट: www.hfc।com; ईमेल: secretarial@hfc।com

सूचना
भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुसंधानों को पुनः जमा करने हेतु विशेष विंडो
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई 2025 ("सेबी परिपत्र") के माध्यम से भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुसंधानों को पुनः जमा करने के लिए एक विशेष विंडो की शुरुआत की थी।सेबी के परिपत्र के अनुसार, जिन शेयरधारकों ने 01 अप्रैल 2019 से पहले भौतिक शेयरों के हस्तांतरण का अनुसंधान जमा किया था और जिनके अनुसंधान दस्तावेजों/प्रक्रियात्मक कर्मियों के कारण अस्वीकृत या वापस कर दिए गए थे, उन्हें 07 जुलाई 2025 से 06 जनवरी 2026 तक वैध दस्तावेजों के साथ ऐसे अस्वीकृत हस्तांतरण अनुसंधानों को पुनः जमा करने का अवसर प्रदान किया गया था।निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियों तक सही पहुंच प्राप्त करने में और अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, सेबी ने 01 अप्रैल 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डिमैटेरियलाइजेशन ("डिमैट") के लिए एवं विशेष विंडो खोलने का निर्णय लिया है तथा अब अपने परिपत्र सं. HO/3८/13/1(2)2026-MIRSD-PoD/1३5७0-2026 दिनांक ३0 जनवरी 2026 के माध्यम से इस विशेष विंडो को 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए खड़ा किया है।

पात्र शेयरधारक जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऊपर उल्लिखित अवधि (05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027) के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रंस्ट्रफर एजेंट को हस्तांतरण अनुसंधान जमा कर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:
 एसएफसीएस ट्रंस्ट्रफर एजेंट लि.
 पता: 179-180, लोएसआईटीडी शेड, उरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-क नई दिल्ली-110020
 दूरभाष: 011-41406149-52
 ईमेल: admin@mcsgregistrars.com
 वेबसाइट: www.mcsgregistrars.com
 इस प्रकार हस्तांतरित प्रतिभूतियां अनिवार्य रूप से केवल "डिमैट मोड्यूस" में ही हस्तांतरित की खालें में जमा की जाएगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन के तहत रहेंगी।
 उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/लीन-मार्क /गिरवी नहीं किया जा सकेगा।

कृते, एसएफसीएल लिमिटेड	कृते, हारर्टून कम्युनिकेशंस लिमिटेड
हस्ता./-	हस्ता./-
(मनोज वैद)	संजित मलिक
स्थान: नई दिल्ली	स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 29 जुलाई 2026	दिनांक: 29-०७-2026
प्रिंटेड एवं कंपनी सचिव	प्रबंध निदेशक (DIN: 00994408)

CAPRI GLOBAL कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड			
पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय :- 502, टावर-२, पेनिंगुला विजयनगर पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-40001३			
संक्षिप्त कार्यालय :- 9-नं०, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110060			
परिशिष्ट-IV-क [नियम ८ (6) और 9(1) का परतुक देखें]			
अचल संपत्तियों की बिज्जी के लिए बिज्जी सूचना			
क्र.सं.	1. कर्जदार(री) का नाम	बैंचक सम्पत्ति का वर्णन	
1.	1. श्री राम गोपाल सिड (कर्जदार) 2. श्रीमती राजेंदी (सह-कर्जदार) (क्रेण खाला संख्या 51०00010321८८४ 51200001019818 रु. 77,68,७०/-) (रुपये सत्तरहतर लाख अड़सठ हजार छह + लागू भावी ब्याज)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि एवं भवन, खसरा नंबर 526, क्षेत्रफल परिमाण 120 वर्ग गज यानी 10८३७ वर्ग मीटर, जो गांव पटना, परगना और हादसील हाण्डु, बहार सीमा नगर पालिका हाण्डु, उत्तर प्रदेश -245101 में स्थित है। चौधदरी निम्नानुसार : पूर्व: नवीम नदी, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: उमेश का मकान, दक्षिण: श्री ओमदीर का मकान	1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईम्पडी जमा करने की अंतिम तिथि ३. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 1. ई-नीलामी की तिथि : 0९-09-202६ (अप. ३.00 बजे से अप. 4:00 बजे के बीच) 2. ईम्पडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 0८-0९-2026 ३. निरीक्षण की तिथि : 07-0९-202६ 1. सुरक्षित मूल्य 2. सम्पत्ति की ईम्पडी ३ वृद्धि मूल्य सुरक्षित मूल्य : रु. 7३,60,000/- (रुपए सित्तर लाख साठ हजार मात्र) बैंक शरीर जमा : रु. 7,३6,000/- (रुपए सात लाख छत्तीस हजार मात्र) वृद्धि मूल्य : रु. 70,०0,000/- (रुपए सत्तर हजार मात्र)

बिज्जी के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, प्रचलित लेनदार, की वेबसाइट www.caprihome।oans.com/auction में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।
ऑनलाइन ई-नीलामी बिज्जी के नियम एवं शर्तें
 1. सम्पत्ति/ई-जहा है जहां है, जो भी है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जा रही है। अत्यंत बिक्री किसी प्रकार की वारंटी एवं हानिपूर्ति के बिना की जा रही है।
 2. सम्पत्ति/आसित के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलामी बिज्जी सूचना में निर्दिष्ट सीमा एवं परिमाण) प्रतिभूत लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं तथा प्रतिभूत लेनदार किसी जुट्टि, निष्ठाकथन अथवा विलोचन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप बिना हो सकता है।
 3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलामी बिज्जी सूचना जसमायाम को अपनी बेविय्या प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा यह प्रतिभूत लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिप्रेदन नहीं है और न ऐसा करता सामान्य होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वाभिव विवेक की प्रतिभूत लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आसित के स्वाभिव के स्वाभिव एवं वर्णान दशा तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/देयताओं की स्वतंत्र जांच/सतर्क जांच कर लेने की सलाह दी जाती है।
 4. नीलामी/बोलीदान सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट https://sarfaesi.auctiont।nger.net पर अथवा ऑनलाइन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेट्रैनिंग मोड" द्वारा होगा, जो ई-नीलामी संचालन के चारित्रे नीलामी की संपूर्ण प्रक्रिया को व्यवस्था एवं समन्वय करेगा।
 5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पहचान के स्थान से ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश आडान, फायर फ्लैयर इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
 6. सभापति बोलीदाता ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑनलाइन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079-61200531 / 57६/ 59६/ 5९८/ 5९८/ 594), श्री रामपदास शर्मा मोबाइल नंबर 800-002-3२९7 / 79-6120 05९९, ई-मेल : ramprasad@auctiont।nger.net से सम्पर्क कर सकते हैं।
 7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिज्जी में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण https://sarfaesi.auctiont।nger.net पर प्यांच अग्रिम में करवाना होगा तथा मूल्य आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलते ही तत्काल इसको बदल देने की सलाह दी जाती है।
 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिवेष्ट ईम्पडी, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) "केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड" के पक्ष में हिमांड ड्राफ्ट/(एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा ०८-09-202६ को अथवा पूर्व जारी किया जा सकता है।
 9. इच्छुक बोलीदाताओं को भविष्यतः भव गया बोली प्रेषण (मार्गमें https://sarfaesi.auctiont।nger.net पर उपलब्ध है) ईम्पडी हेतु हिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड, ऑनलिक कार्यालय, प्लॉट नंबर 9८1, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-1100६0 को भेजना चाहिए, जो ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
 10. ई-नीलामी बोलीदान को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईम्पडी सहित) बोली उरसाफ पक्ष में छूटने पर, बिज्जी के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिज्जी की तिथि से 15 दिन के भीतर केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में केंद्री/ई अर्डर/(एनईएफटी/ आरटीजीएस/बैंक द्वारा जमा करनी होगी।
 15. सफल बोलीदान/नीलामी द्वारा जारी निर्धारित राशियों का भुगतान निवत अवधि के भीतर करने में बूक की स्थिति में, बिज्जी रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईम्पडी सहित) जन्क कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बिज्जी हेतु खोली जा सकती है।
 16. सफल बोलीदाता के अनुसंधान पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
 17. सफल बोलीदाता को बिज्जी मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिज्जी राशि से) उदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिज्जी मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस कराने के बाद), ईम्पडी समायोजित करने हेतु, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर एवं बोली होगी, जिसमें अरसफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जन्क कर ली जाएगी।
 18. न्युनिसिफर/पंचासत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिज्जी प्रमाणपत्र के निर्वहन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलिया सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
 19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिज्जी प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रसारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।

- हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, पंजीकृत प्रमाण तथा अन्यथा प्रमाण नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिज्जी कार्यवाही प्रभावित/निस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिज्जी कार्यक्रम बिज्जी की निर्धारित तिथि से ३0 से कम दिन बिना किसी सूचित हेतु प्रारम्भित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, अप्रकारणी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
- प्राधिकृत बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिज्जी के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बंध्य होंगे।
- कृपया नोट करें कि यदि ईम्पडी जमा करने के बाद केवल एक बोलीदाता ग्राह्य पाया जाता है, तो उस बोलीदाता के भाग नहीं लेने पर जखी की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे बोलीदाता को नियत तिथि और समय पर लॉन इन करके ड्राइव ई-ऑक्शन में भाग लेना अनिवार्य है। केवल बोली फार्म जमा करना और ईम्पडी जमा करना प्रमाणितगता नहीं माना जाएगा। यदि एकमात्र ग्राह्य बोलीदाता किसी भी कारण से (ई-नीलामी सेवा प्रदाता की प्रमाणिकृत तकनीकी खराबी को छोड़कर) लॉन इन करके लाइव ई-नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाता है, तो ईम्पडी बिना और कोई सूचना दिए स्वतः जन्क हो जाएगी, और प्राधिकृत अधिकारी को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईम्पडी सहित) बोली उरसाफ पक्ष में छूटने पर, बिज्जी के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिज्जी की तिथि से 15 दिन के भीतर केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में केंद्री/ई अर्डर/(एनईएफटी/ आरटीजीएस/बैंक द्वारा जमा करनी होगी।
- सफल बोलीदान/नीलामी द्वारा जारी निर्धारित राशियों का भुगतान निवत अवधि के भीतर करने में बूक की स्थिति में, बिज्जी रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईम्पडी सहित) जन्क कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बिज्जी हेतु खोली जा सकती है।
- सफल बोलीदाता के अनुसंधान पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली राशि की बकाया रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अपने विवेकानुसार लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
- सफल बोलीदाता को बिज्जी मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बतौर टीडीएस (बिज्जी राशि से) उदा करनी होगी तथा टीडीएस सर्टिफिकेट प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिज्जी मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस कराने के बाद), ईम्पडी समायोजित करने हेतु, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर स्वीकार किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विचारित विस्तारित अवधि के भीतर एवं बोली होगी, जिसमें अरसफल रहने पर जमा की गई धरोहर जमा जन्क कर ली जाएगी।
- न्युनिसिफर/पंचासत कर, बिजली बकाया (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई) का भुगतान बिज्जी प्रमाणपत्र के निर्वहन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलिया सम्पत्ति से संबंधित सभी कानूनी बकाया को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिज्जी प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल/बोली राशि जमा करने तथा सभी करों/प्रसारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
- हस्तांतरण, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, पंजीकृत प्रमाण तथा अन्यथा प्रमाण नीलामी क्रेता को वहन करने होंगे।
- प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिज्जी कार्यवाही प्रभावित/निस्त कर सकते हैं। ई-नीलामी बिज्जी कार्यक्रम बिज्जी की निर्धारित तिथि से ३0 से कम दिन बिना किसी सूचित हेतु प्रारम्भित करने की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, अप्रकारणी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
- प्राधिकृत बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, यह माना जाएगा कि वे ई-नीलामी बिज्जी के नियम एवं शर्तें पढ़ एवं समझ चुके हैं तथा उनके अधीन बंध्य होंगे।

15. कृपया नोट करें कि यदि ईम्पडी जमा करने के बाद केवल एक बोलीदाता ग्राह्य पाया जाता है, तो उस बोलीदाता के भाग नहीं लेने पर जखी की कार्यवाही की जाएगी। ऐसे बोलीदाता को नियत तिथि और समय पर लॉन इन करके ड्राइव ई-ऑक्शन में भाग लेना अनिवार्य है। केवल बोली फार्म जमा करना और ईम्पडी जमा करना प्रमाणितगता नहीं माना जाएगा। यदि एकमात्र ग्राह्य बोलीदाता किसी भी कारण से (ई-नीलामी सेवा प्रदाता की प्रमाणिकृत तकनीकी खराबी को छोड़कर) लॉन इन करके लाइव ई-नीलामी में हिस्सा नहीं ले पाता है, तो ईम्पडी बिना और कोई सूचना दिए स्वतः जन्क हो जाएगी, और प्राधिकृत अधिकारी को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईम्पडी सहित) बोली उरसाफ पक्ष में छूटने पर, बिज्जी के 24 घंटे के भीतर तथा बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि बिज्जी की तिथि से 15 दिन के भीतर केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के पक्ष में केंद्री/ई अर्डर/(एनईएफटी/ आरटीजीएस/बैंक द्वारा जमा करनी होगी।

26. सफल बोलीदान/नीलामी द्वारा जारी निर्धारित राशियों का भुगतान निवत अवधि के भीतर करने में बूक की स्थिति में, बिज्जी रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशियां (ईम्पडी सहित) जन्क कर ली जाएगी और सम्पत्ति दोबारा बिज्जी हेतु खोली जा सकती है।

विषय अनुसंधान/वेधानामा : बोलीदाताओं को अप्रिम फिर्दौत अथवा कर्मा में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में स्थानांतरण। ना तो केंद्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड और ना ही सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी विकसलता/कमी (विकृत विकसलता, इंटरनेट विकसलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होंगे। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित फैकसफ ऑफर आधुर्नित इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विवरण तैयार करें, ताकि वे बिज्जी की आकस्मिक सफलता से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान : दिल्ली/एनडीसी
 तिथि : ३0-जुलाई-2026

CORAL NEWSPRINTS LTD.

Regd. Office : A-138, 1st Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092
 CIN NO : L22219DL1992PLC04839८, E-mail : cnpl_५000@rediffmail.com
 Website : www.coralnewsprintslimited.com

Annexure XI

Abstract of Unaudited Financial Result (Standalone) for the Quarter & Year ended on 30.06.2026

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2026 Unaudited	Year to date Figures ३1.03.2026 Audited	Quarter ended 30.06.2025 Unaudited
1.	Total income from operations (net)	0.00	13.26	0.00
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(14.20)	(31.88)	(14.74)
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(14.20)	(31.88)	(14.74)
4.	Equity Share Capital	505.27	505.27	505.27
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	(1,454.36)	(1,440.16)	(1,423.03)
6.	Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)			
	Basic:	(0.28)	(0.63)	(0.29)
	Diluted:	(0.28)	(0.63)	(0.29)
7.	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)			
	Basic:	(0.28)	(0.63)	(0.29)
	Diluted:	(0.28)	(0.63)	(0.29)

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and on Company's website at www.coralnewsprintslimited.com

By Order of the Board

For Coral Newsprints Ltd.

(Pushpendra P.S.Chauhan)

Place : Delhi

Dated : 29.07.2026

Whole Time Director & CEO, (DIN No : 01८71760)

हारटून कम्युनिकेशंस लिमिटेड

CIN: U70102HR1988PLC03०379

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. ३16, उद्योग विहार, फेज-IV, गुरुग्राम, हरियाणा - 122016

सार्वजनिक सूचना

प्रषर आरएससी-4

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ, कोर्ट-क द्वारा सीपी सं. 1/Chd/Hry/2025 में दिनांक 23.07.2026 को दिए गए आदेश के पैरग्राफ 8-के निर्देश (iii) के अनुसार में, कंपनी अधिनियम, 201३ की धारा 66 के तहत दिनिर्न 10.08.2024 के विशेष प्रस्ताव द्वारा स्वीकृत कंपनी की शेयर पुंजी में कटौती की पुष्टि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा कर दी गई है। तदनुसार, सार्वजनिक और गैर-प्रमोटेड गैर-सार्वजनिक श्रेणी के शेयरधारकों के पास मौजूद र. 10/- प्रति शेयर वाले 25,६2,555 इक्विटी शेयर रद्द और समाप्त कर दिए गए हैं, और ऐसे शेयरधारक स्तं पर कर कटौती के अग्रिम, लागू नियमों के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर र. 111/- (रुपये एक सौ ग्यारह केवल) का प्रतिफल प्राप्त करने के हकदार हैं। कंपनी ने उक्त पुंजी कटौती पर प्रतिफल प्राप्त करने के हकदार सदस्यों, जिनके इक्विटी शेयर इसके परिणामस्वरूप रद्द हो गए हैं, जैसा कि रिर्काई तिथि तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिजिटिजटी द्वारा प्रदान की गई लापकारी न्यायियों की सूची में दर्ज है, के नामों का निर्धारण करने के लिए 10.08.2026 को 'रिर्काई तिथि' के रूप में निश्चित किया है। रिर्काई तिथि के व्यावसायिक शंटों की समाप्ति से कंपनी का आईएसआईएन INEOAG0011३ एनएसडीएल द्वारा निरन्वित कर दिया जाएगा। संबंधित शेयरधारकों / उनके कानूनी वारिसों से अनुरोध है कि वे अपने अद्यतन केवाईसी विवरण (स्व-सत्यापित पैन कार्ड, पहचान का प्रमाण, पूरा डाक पता, नमूना हस्ताक्षर, बैंक खाते का विवरण / रद्द किया गया चेक या बैंक द्वारा सत्यापित विवरण) और मूल शेयर प्रमाण पत्र या डिमैट खाता विवरण के साथ अन्य प्रासंगिक दस्तावेज, और कानूनी वारिसों के मामले में आवश्यक हस्तांतरण दस्तावेज, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रंस्फर एजेंट यानी निविस को उपलब्ध करा दें। (LTPIN: AAM-9६49), 03, शंकर विहार, 2^{री} मंजिल, विकास मार्ग, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली - 110092 को प्रस्तुत करें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भुगतान प्राप्त किया जा सके। दस्तावेजों से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए info@nvis.co.in पर ईमेल करें।

कृते, हारटून कम्युनिकेशंस लिमिटेड	कृते, एसएफसीएल लिमिटेड
हस्ता./-	हस्ता./-
संजित मलिक	(मनोज वैद)
स्थान: गुरुग्राम	स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29-०७-2026	दिनांक: 29 जुलाई 2026
प्रबंध निदेशक (DIN: 00994408)	प्रिंटेड एवं कंपनी सचिव

Samco Asset Management Private Limited

A-1003 Naman Midtown, 10th Floor, Prabhadevi (west), Mumbai 400 013

Tel: +91 22 4170 8999; | **Toll Free No.:** 1800 103 4757

CIN: U65929MH2019PTC334121

Website: www.samcomf.com

NOTICE No. 44/2026

Annual Report of the scheme(s) of Samco Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders of all the Scheme(s) of Samco Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with paragraph 5.4 of SEBI Master Circular for Mutual Funds dated July 27, 2024, the Annual Report of all the Schemes of Samco Mutual Fund ("SMF") for the financial year ended March 31, 2026 have been hosted on the website of the Fund www.samcomf.com and on AMFI's website viz www.amfiindia.com, respectively.

The Investors/Unitholders can view and download Annual Report of all schemes of Samco Mutual Fund from the website of the AMC and AMFI. Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report by writing to the AMC at the email address mfassit@samcomf.com or calling the AMC on the toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any of the official points of acceptance of SMF.

For Samco Asset Management Private Limited